



नैला के आटोमोबाइल्स दुकान से नकली इंजन आयल बरामद

नैला के सुनील आटोमोबाइल में बड़ी तादात में नकली इंजन आयल जब्त किया गया है। इसकी रिपोर्ट कंपनी के इंजीनियर व अन्य टीमों आई थी जो नकली सामान को पकड़ा और मामले की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई है।

जांजगीर-चांपा। नैला चौकी प्रभारी ने बताया कि दिल्ली के कैक्ट्रोल आयल कंपनी का मैनेजर दिलीप कुमार पिता साहब कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी कंपनी की नकली आयल बाजार में खप रहा है। इसकी सूचना मिलने पर शहर के कई दुकानों में छापेमारी की तब पता चला कि नैला के सुनील आटोमोबाइल में बड़ी तादात में नकली आइल खप रहा है। इससे कंपनी का नुकसान हो रहा है। छापेमारी में जब कंपनी के सामान ओरिजन आयल व नकली का मिलान किया तो कालाबाजारी खुलकर सामने आ गया। जिसके चलते सुनील आटोपाटर्स के संचालक आशीष कुमार अग्रवाल की दुकान से २० डिब्बा आयल जब्त कर नैला चौकी के सुपुर्द किया गया। आयल की कीमत ७३२० रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रिपोर्ट दर्ज कर रही है। इसी तरह कंपनी के मैनेजरों ने शंकर आटोमोबाइल में भी ६ नग नकली इंजन आयल मिला। संचालक मातूराम सुल्तानिया के कब्जे से ६ डिब्बा नकली आयल मिला। इसकी कीमत २१९६ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

डुप्लीकेट व ओरिजनल में ये हैं चार अंतर

कंपनी के मैनेजर ने बताया

- ० अच्छी कंपनी के आयल में रिफायनी आयल मिलता है। जो इंजन में असल काम आता है। नकली आयल इंजन को नुकसान पहुंचाता है।
- ० कंपनी के ब्रांडेड आयल के डिब्बे में बार कोड लगा होता है। नकली में बार कोड भी नकली लगा हुआ था। तो नाखून से उखाड़ने में निकल गया।
- ० नकली में बैच नंबर भी गलत लिखे थे। जिससे उसकी पहचान हुई। डिब्बे के सीरियल नंबरों की भी मिलान की गई जिसमें अंतर पाया गया।
- ० असली आयल के कैप कवर में जेलर प्रिंटर से कंपनी के नाम पर अन्य मोनो लिखा

होता है। जो नकली में नहीं होता।
नैला के आटोमोबाइल्स दुकान से नकली इंजन आयल बरामद

Source: <https://www.patrika.com/janjgir-champa-news/fake-engine-oil-recovered-from-naila-s-automobile-shop-7654922/>